



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 अग्रहायण 1934 (श०)
(सं० पटना 645) पटना, सोमवार, 3 दिसम्बर 2012

गृह (विशेष) विभाग

अधिसूचना

23 नवम्बर 2012

सं० जे०/डी०ई०मिस०-1003/2000-10214—स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 एवं पी०आई०टी०एन०डी०पी०एस० अधिनियम 1988 के प्रावधानों के आलोक में अफीम की अवैध रूप से हो रही खेती को विनष्ट करने के लिए राज्य सरकार के अधिसूचना सं० 10013 दिनांक 08.12.2009 के द्वारा राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर कम्पोजिट टीम का गठन किया गया था, लेकिन हाल में गृह (आरक्षी) विभाग के ज्ञापांक 1/सी०12/2011-गृ०आ०-8752 के द्वारा आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु पुलिस महानिरीक्षक के प्रभार में आर्थिक अपराध इकाई का गठन किया गया है जिसमें पुलिस महानिरीक्षक को राज्य के आर्थिक अपराध से संबंधित किसी भी कांड का अनुसंधान या अनुसंधान का नियंत्रण के संबंध में आदेश पारित करने एवं आवश्यकतानुसार जिला पुलिस को आर्थिक अपराधों के अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु मार्गदर्शन करने का दायित्व सौंपा गया है। आर्थिक अपराध इकाई में नारकोटिक्स शाखा भी शामिल है और पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, अवैध अफीम की खेती की पहचान एवं विनष्टीकरण करने हेतु नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित है।

अब चूंकि नारकोटिक्स शाखा सीधे पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई के नियंत्रण में कार्यरत है और राज्य स्तर पर केन्द्रीय भूमिका का निर्वहन इस इकाई द्वारा किया जा रहा है ऐसी परिस्थिति में राज्य स्तरीय कम्पोजिट टीम में पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई का सदस्य होना समीचीन होगा।

उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य में अफीम की अवैध खेती के बहुसंख्यक मामले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पाये गये हैं, ऐसी परिस्थिति में संबंधित कार्रवाई के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की आवश्यकता पड़ती है। विशेष अभियानों में अर्द्धसैनिक बलों को भी शामिल किया जाता है। अतः अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान, बिहार, पटना के स्थान पर अपर पुलिस महानिदेशक, (विधि-व्यवस्था) बिहार, पटना को राज्य स्तरीय कम्पोजिट टीम का अध्यक्ष बनाया गया है।

इसी प्रकार जिला स्तरीय कम्पोजिट टीम में जिला समाहर्ता के प्रतिनिधि के तौर पर अपर समाहर्ता स्तर के एक पदाधिकारी को सम्मिलित किया गया है।

अब उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय कम्पोजिट टीम का पुनर्गठन किया गया है जो निम्न प्रकार है:-

राज्य स्तरीय कम्पोजिट टीम

(1) अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था), बिहार, पटना — अध्यक्ष

- (2) पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना – सदस्य
- (3) उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना – सदस्य
- (4) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के मनोनित प्रतिनिधि – सदस्य
- (5) संयुक्त निदेशक, आई०बी०(खुफिया विभाग), पटना के मनोनित प्रतिनिधि – सदस्य
- (6) विशेष सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना – सदस्य
- (7) नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, भारत सरकार के मनोनित प्रतिनिधि – सदस्य
- (8) पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना – सदस्य सचिव।

जिला स्तरीय कम्पोजिट टीम

- (1) पुलिस अधीक्षक – अध्यक्ष
- (2) वन प्रमंडल पदाधिकारी – सदस्य
- (3) अपर समाहर्ता (राजस्व) – सदस्य
- (4) विशेष शाखा के पदाधिकारी – सदस्य
- (5) उत्पाद अधीक्षक – सदस्य सचिव।

उपरोक्त दोनों स्तरों पर गठित कम्पोजिट टीम अपने-अपने क्षेत्राधिकार में एक दूसरे से समन्वय स्थापित करते हुए अफीम की अवैध रूप से की जा रही खेती को विनष्ट करने के कार्य के साथ-साथ अन्य अवैध मादक पदार्थों को विनष्ट करने के लिए समुचित कार्यवाई हेतु अधिकृत की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रीता वर्मा,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 645-571+20-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>